

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2023	2024		घट-बढ़	
	दिसंबर 15	दिसंबर 6	दिसंबर 13	समाह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3335422	3527114	3536461	9347	201038
1.1 संचलन में नोट	3335410	3527096	3536444	9349	201034
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	12	19	17	-2	5
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	101	101	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	936401	1033128	986172	-46956	49771
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8084	8510	8764	253	679
2.6 अन्य बैंक	53012	55752	55519	-234	2507
2.7 अन्य	533596	293899	410617	116718	-122979
3 अन्य देयताएं	1745325	1941476	1929170	-12306	183845
कुल देयताएं / आस्तियां	6611984	6860023	6926846	66823	314862
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4568004	4827263	4807626	-19638	239622
2 सोना	394838	566898	577133	10235	182294
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1358041	1272179	1272522	342	-85519
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	11131	0	-11131	0
4.2 राज्य सरकारें	15212	34432	28744	-5688	13532
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	155844	9846	108704	98858	-47140
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	104632	118239	111723	-6516	7092
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	13349	17970	18331	361	4982

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकनकी वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	दिसंबर 13, 2024 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			समाह		मार्च 2024 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5536494	652869	-9669	-1988	145238	6450	424452	36898
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां #	4770775	562576	-19659	-3047	8931	-8374	247413	17528
1.2 स्वर्ण	577133	68056	10235	1121	137814	15381	182295	20480
1.3 विशेष आहरण अधिकार	152617	17997	-96	-35	1393	-135	557	-326
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	35969	4240	-149	-27	-2900	-422	-5812	-783

* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकनकी वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल है; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

दिसंबर 13, 2024 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 1013282 करोड़	2024												
	नवंबर 30	दिसंबर 1	दिसंबर 2	दिसंबर 3	दिसंबर 4	दिसंबर 5	दिसंबर 6	दिसंबर 7	दिसंबर 8	दिसंबर 9	दिसंबर 10	दिसंबर 11	दिसंबर 12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	1062160	1064222	1021675	1017874	999423	1036254	1040581	1003468	1007546	991432	997497	991881	988347
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	104.8	105.0	100.8	100.5	98.6	102.3	102.7	99.0	99.4	97.8	98.4	97.9	97.5

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	नवंबर 29, 2024 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2023-24	2024-25	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	273722	-12316	22894	-20749	44502	24709
1.2 बैंकों से उधार	136378	1114	133101	-46051	133075	-63923
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	24840	190	13003	-47612	19247	-46687
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	22017796 (21948635)	161906	1842582 (1716490)	1542569	2362331 (2236238)	2131300 (2188232)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.7	10.2 (9.5)	7.5	13.5 (12.8)	10.7 (11.1)
2.1.1 मांग	2576578	61020	153733	132725	244815	242414
2.1.2 मीयादी	19441218	100886	1688849	1409845	2117516	1888886
2.2 उधारियां	950040	32677	396935	172098	401272	107776
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1020554	79571	163201	83126	229962	67702
3 रिज़र्व बैंक से उधार	21293	14670	-73806	-201423	-4027	-69986
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1114691	12382	126309	93776	98512	88212
4.1 उपलब्ध नकदी	90876	-2983	-2267	1443	-33074	2881
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	1023815	15365	128577	92332	131586	85331
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	195946	-15365	-1366	-2381	-13195	3890
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	19091	-2636	-4787	6736	8149	-987
5.3 बैंकों को अग्रिम	38641	-2481	10742	-9727	5373	-13285
5.4 अन्य आस्तियां	61078	-66	28160	-54346	36127	-34212
6 निवेश	6538951 (6487733)	48975	615776 (511413)	432393	909711 (805348)	508028 (561172)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.8	11.4 (9.4)	7.1	17.8 (15.7)	8.4 (9.5)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6538387	48990	615762	432777	909688	508303
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	565	-15	14	-384	23	-275
7 बैंक ऋण	17509171 (17053157)	146353	2150220 (1572028)	1077007	2719212 (2141019)	1683715 (1805894)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.8	15.7 (11.5)	6.6	20.7 (16.3)	10.6 (11.8)
7 क.1 खाद्य ऋण	51254	6097	21787	28173	-9927	9561
7 क.2 खाद्योत्तर ऋण	17457917	140256	2128433	1048834	2729138	1674154
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	17198831	142219	2126049	1064528	2677303	1647875
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	68351	1504	9226	7884	14155	19691
7 ख.3 भुनाए गए	205253	2466	24004	7895	32580	18339
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	15186	174	-3048	-1226	79	-1311
7 ख.5 भुनाए गए	21550	-10	-6010	-2074	-4905	-879

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/सामाज्य सामाह	2023	2024				
	दिसंबर 15	नवंबर 15	नवंबर 22	नवंबर 29	दिसंबर 6	दिसंबर 13
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	5.19	5.06	..	5.08	..	..
	(5.16)	(5.04)	..	(5.06)	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	77.31	77.60	..	77.70	..	..
	(79.73)	(79.44)	..	(79.52)	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	94.16	70.73	..	72.81	..	..
	(120.40)	(67.41)	..	(69.82)	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.79	29.56	..	29.56	..	..
	(30.12)	(29.69)	..	(29.70)	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	27.38	29.87	..	29.89	..	..
	(31.21)	(27.77)	..	(28.03)	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर *	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
आधार दर	8.95/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.95/8.50	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	6.76	6.42	6.56	6.70	6.48	6.64
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.98	6.44	6.46	6.49	6.43	6.45
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.19	6.62	6.65	6.66	6.54	6.61
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.19	6.61	6.62	6.65	6.53	6.58
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.16	6.83	6.86	6.79	6.76	6.74
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया @						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्फोट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.18	84.41	84.50	84.50	84.66	84.84
भारतीय रुपया-यूरो स्फोट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	91.37	89.06	88.45	89.36	89.53	88.74
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.15	1.62	1.74	1.94	1.99	2.29
3-माह	1.18	1.68	1.80	1.98	1.98	2.25
6-माह	1.52	1.97	2.01	2.18	2.04	2.25

* प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका / डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2024		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2023-24		2024-25		2023		2024	
	मार्च 31	नवंबर 29	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	24831618 (24939860)	26448312 (26517472)	156109 (155037)	0.6 (0.6)	1695513	7.6	1616694 (1577611)	6.5 (6.3)	2422683	11.2	2409038 (2352106)	10.0 (9.7)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3443969	-11913	-0.3	-26282	-0.8	33693	1.0	161775	5.2	193815	6.0
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2586888	2718425	60980	2.3	155154	6.7	131537	5.1	245265	11.0	242674	9.8
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	18739918 (18848160)	20182925 (20252085)	101820 (100748)	0.5 (0.5)	1568818	9.4	1443007 (1403925)	7.7 (7.4)	2005290	12.4	1945141 (1888209)	10.7 (10.3)
1.4 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	94536	102993	5222	5.3	-2177	-2.8	8456	8.9	10354	15.9	27408	36.3
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016 (7603571)	8035455 (8086673)	-17525 (-17524)	-0.2 (-0.2)	234105	3.3	523439 (483102)	7.0 (6.4)	660727	9.8	635817 (582673)	8.6 (7.8)
2.1.1 रिजर्व बैंक	1193213	1242346	-66509		-281438		49133		-148810		72658	
2.1.2 अन्य बैंक	6318803 (6410358)	6793109 (6844328)	48985 (48985)	0.7 (0.7)	515543	9.0	474306 (433970)	7.5 (6.8)	809537	14.9	563159 (510014)	9.0 (8.1)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	16672145 (17202832)	17835482 (18291496)	148364 (146423)	0.8 (0.8)	1561795	10.8	1163337 (1088665)	7.0 (6.3)	2146094	15.5	1844052 (1721873)	11.5 (10.4)
2.2.1 रिजर्व बैंक	14406	10463	1314		-21318		-3943		-14569		5232	
2.2.2 अन्य बैंक	16657739 (17188426)	17825020 (18281034)	147050 (145109)	0.8 (0.8)	1583113	11.0	1167281 (1092608)	7.0 (6.4)	2160663	15.6	1838819 (1716641)	11.5 (10.4)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5567245	5775605	9075	0.2	332532	6.8	208360	3.7	582462	12.5	531308	10.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	33432	35180	0	0	1979	6.5	1748	5.2	2881	9.8	2915	9.0
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	4953219 (5467219)	5233410 (5671482)	-16195 (-17063)	-0.3 (-0.3)	434897	10.4	280191 (204264)	5.7 (3.7)	969480	26.5	605053 (486663)	13.1 (9.4)
2.5.1 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1789875	1901186	83699	4.6	74038	4.7	111310	6.2	222407	15.5	239583	14.4

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2024		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2023-24		2024-25		2023		2024	
	मार्च 31	दिसंबर 13	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4631446	4721563	-37412	-0.8	53509	1.2	90116	1.9	267679	6.4	281295	6.3
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3511461	3571864	9349	0.3	-10846	-0.3	60402	1.7	126246	3.9	204189	6.1
1.2 रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	1025449	1050455	-46936	-4.3	67021	7.2	25006	2.4	130484	15.0	52957	5.3
1.3 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	94536	99244	176	0.2	-2666	-3.4	4708	5.0	10950	17.1	24149	32.2
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1193213	1239095	-78766		-337787		45882		15382		125756	
2.1.1 रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1186655	1210394	-73078		-352207		23739		12222		112224	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-46147	-21220	37871		163363		24927		18369		-90140	
2.2.1 बैंकों पर रिजर्व बैंक के निवल दावे	-60553	-31491	37677		184682		29062		27420		-95181	
2.3 रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	5384126	-9252	-0.2	375468	8.2	143302	2.7	456856	10.1	421303	8.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	33432	35419			1979	6.5	1988	5.9	2881	9.8	3155	9.8
2.5 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1789875	1915858	-12735	-0.7	149515	9.4	125983	7.0	225808	14.9	178778	10.3

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
दिसंबर 09, 2024	-	-	40630	-	826	73311	-	-	-	-31855
दिसंबर 10, 2024	-	-	-	-	8844	53024	-	-	-	-44180
दिसंबर 11, 2024	-	-	25005	-	5314	85961	-	-	-	-55642
दिसंबर 12, 2024	-	-	-	-	1231	98910	-	-	-	-97679
दिसंबर 13, 2024	-	-	75004	-	31070	140196	-	-	-	-34122
दिसंबर 14, 2024	-	-	-	-	21036	75236	-	-	-	-54200
दिसंबर 15, 2024	-	-	-	-	17896	89924	-	-	-	-72028

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा.

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2023		2024		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	अक्तूबर	नवंबर	अक्तूबर	नवंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	185.3	186.3	196.8	196.5	-0.2	5.8	5.5
1.1 ग्रामीण	187.0	188.2	199.5	199.4	-0.1	6.2	6.0
1.2 शहरी	183.4	184.2	193.7	193.1	-0.3	5.2	4.8
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	138.4	139.1	144.5	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	152.5	153.1	156.1	156.0	-0.1	3.0	1.9
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	185.3	187.6	200.3	197.9	-1.2	8.0	5.5
3.2 ईंधन और बिजली	155.5	156.2	146.5	147.1	0.4	-3.3	-5.8
3.3 विनिर्मित उत्पाद	140.4	140.2	142.5	143.0	0.4	2.1	2.0

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
नवंबर 29, 2024	491659	40435	6.98 - 7.60
दिसंबर 13, 2024	488257	74226	6.96 - 7.75

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
नवंबर 30, 2024	445122	64505	7.00 - 12.61
दिसंबर 15, 2024	463801	98956	7.00 - 11.89

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	दिसंबर 15, 2023	दिसंबर 06, 2024	दिसंबर 13, 2024
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	19399	15780	21252
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	6448	4587	933
3 त्रिपक्षीय रेपो	708115	719747	695288
4 बाजार रेपो	617802	512219	521188
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	620	5835	5302

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

दिसंबर 13, 2024 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	3966	8735	86046	174646
182-दिवसीय	42959	29890	10265	169865
364-दिवसीय	77042	104793	35686	382686
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2024-25 (दिसंबर 13, 2024 तक)	2023-24 (दिसंबर 15, 2023 तक)	2023-24	2024-25 (दिसंबर 13, 2024 तक)	2023-24 (दिसंबर 15, 2023 तक)	2023-24
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1023697	1210000	1543000	674271	829404	1102871
2. राज्य सरकारें	562722	563563	1007058	376046	379934	717140

WSS वेबसाइट पर संपादित और प्रकाशित। WSS तत्पुस्तक (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762) में उपलब्ध है।

समृद्धि और विकास पर https://data.rbi.org.in/ में उपलब्ध है।

डॉ. जी. वि. ननए, निदेशक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, नई दिल्ली-400 001 की ओर से संपादित और प्रकाशित।